

# केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान (मान्य विश्वविद्यालय)

सारनाथ, वाराणसी – 221007

दिनांक- 17.03.2018

भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के 92वें अधिवेशन का आयोजन केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी द्वारा दिनांक 19-21 मार्च 2018 को संस्थान परिसर में किया जा रहा है। इस अधिवेशन में दिनांक 20 से 21 मार्च 2018 तक Higher Education in the era of Innovation, Entrepreneurship and Disruptive Technology with Focus on Human Values in the age of Disruption (नवाचार, उद्यमशीलता और विघटनकारी तकनीकी युग में मानव मूल्यों के संदर्भ में उच्च शिक्षा) विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 150 कुलपति तथा देश विदेश के अनेक शिक्षाविद भाग लेंगे। अधिवेशन का उद्घाटन दिनांक 19 मार्च 2018 को पूर्वाह्न 9 बजकर 45 मिनट पर परमपावन दलाई लामा जी के कर कमलों से होना सुनिश्चित हुआ है।

सूचना तकनीकी तथा अन्य सामाजिक, भौगोलिक व राजनैतिक कारणों से पिछले कुछ दशकों में मनुष्य के क्रियाकलाप का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसमें शिक्षा और उच्चशिक्षा भी सम्मिलित है। सैद्धान्तिक रूप से बुद्धिजीवी वर्ग इस तथ्य से सहमत है कि मानवीय मूल्य विहीन शिक्षा प्रणाली रोजगार के साधन भले ही उपलब्ध करा दे किन्तु मानवता के विकास तथा शान्त और सुखी समाज की स्थापना में इसका कोई विशेष योगदान नहीं हो सकता। बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारी परम्परागत नैतिकता, गुणवत्ता व व्यक्तित्व-निर्माण केन्द्रित शिक्षा-प्रणाली कहाँ तक अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है और वर्तमान उच्चशिक्षा प्रणाली में इनका समावेश किस प्रकार किया जा सकता है, यह उच्चशिक्षा जगत के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, वाराणसी में दिनांक 20 -21 मार्च 2018 तक आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के तीन तकनीकी सत्रों में उच्चशिक्षा के उपर्युक्त संदर्भ में विघटनकारी तकनीकी, नवाचार, उद्यमशीलता और मानव मूल्यों पर देश-विदेश के प्रतिष्ठित विद्वान अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र में दिनांक 20 मार्च 2018 को पूर्वाह्न 9:30 से 11:00 बजे तक परमपावन दलाई लामा जी संगोष्ठी के प्रतिभागी विद्वान कुलपतियों से संवाद करेंगे।

इस अधिवेशन के दिनांक 19 मार्च 2018 को आयोजित उद्घाटन सत्र में परमपावन दलाई लामा जी भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित यूनिवर्सिटी न्यूज नामक सामयिकी के विशेष अंक का लोकार्पण कर उद्घाटन वक्तव्य देंगे तथा संस्थान के कुलपति प्रो. गेशे नवांग समतेन स्वागत वक्तव्य देंगे। इस सत्र की अध्यक्षता भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष तथा एमिटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम (हरियाणा) के कुलपति प्रो. पी. बी. शर्मा, सह-अध्यक्षता, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव प्रो. फुरकान कम्मर करेंगे तथा इस सत्र में विश्व बैंक के उच्च शिक्षा समन्वयक प्रो. फ्रांसिस्को मार्मोजो विशेष व्याख्यान देंगे।